



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक 1936 (श०)

(सं० पटना 943) पटना, बुधवार, 19 नवम्बर 2014

मुख्य अभियंता-2 पटना
ग्रामीण कार्य विभाग
(हार्डिंग रोड बैरक सं०-2 पटना)

आदेश

17 नवम्बर 2014

सं० 2749—जल सं०वि० बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी० दिनांक 04.06.02 पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, नालंदा का पत्रांक-978 दिनांक 20.07.011 जिला अनुकम्पा समिति-सह-जिलाधिकारी नालंदा का ज्ञापांक-1433 दिनांक 18.10.14, ज्ञापांक-1540 दिनांक 15.11.14 एवं पत्रांक-1535 दिनांक 11.11.14 द्वारा श्री मुकेश कुमार अकेला पिता-स्व० कृष्णा प्रसाद भूतपूर्व सर्वेखलासी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 हिलसा वर्तमान ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, राजगीर को अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा प्राप्त के आलोक में श्री मुकेश कुमार अकेला जो शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक परीक्षातीर्ण को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, हरनौत में वर्ग-4 (चार) के रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर (वेतनमान 5200-20200) रुपये एवं ग्रेड पे-1800/-रुपये में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ते तथा अन्य अनुमान्य भत्तों सहित नियुक्ति की जाती है तथा इन्हें प्रशिक्षण अनिवार्य है, वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हरनौत में वर्ग चार के रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में योगदान दे देंगे अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व० कृष्णा प्रसाद, भूतपूर्व सर्वेखलासी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री मुकेश कुमार अकेला पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।

5. अगर श्री मुकेश कुमार अकेला की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों की मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संस्था/बोर्ड से सत्यापित कराने के पश्चात् ही इनका योगदान स्वीकृत होगा एवं अन्य कागजात जाँच करने के पश्चात् ही श्री मुकेश कुमार अकेला के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

9. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 943-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>